Ref: SEC/SE/2024-25 Date: July 16, 2024

To,
Corporate Relations Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai- 400001

BSE Scrip Code: 500096



Listing Department

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Scrip Symbol: DABUR

Sub: Publication of newspaper notice for loss of share certificates

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 16.07.2024 in which notice for intimation of loss of share certificates of the shareholders of the Company have been published.

Submitted for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully

For Dabur India Limited

(A K Jain)

EVP (Finance) and Company Secretary

Encl: as above

14 FINANCIAL EXPRESS

VOITH PAPER FABRICS INDIA LIMITED

Oliz. 173 / 14-X, Sector-24, Farianda d. 12 (02), nr. (17499)41 r1968PL(20040895) Phone: +91 129 4292200, Fax: +91 129 2232072 E-mail: voithfabrics.faridabad@voith.com Website: http://www.voithpaperfabricsindia.com

VOITH

NOTICE TO SHAREHOLDERS

UNDER SECTION 124(6) OF THE COMPANIES ACT, 2013 FOR

TRANSFER OF SHARES TO IEPF AUTHORITY

Members of the company are hereby informed that all shares is respect of which dividends have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund Authority (IP Authority), in accordance with the provisions of Section Fund Authority (IP Companies Act, 2013, read with provisions of Section Fund Authority (IP Audit, Transfer and Berlund Fulles, 2016). Se a memeride (IPF Rules) in this regard. In pursuance of said Rules, Company has already transferre reviewors thaves in earlier years to the designated demant account of IPF Authority, details whereof are available on the website of the Companies. utmorry, details wheeter are available on the website of the Company utther, another lot of shares are due to be transferred to IEPF Authorit nd details whereof are being made available under "investor Relations bub-link, under main link of "Investors Corner" on the website of th ompany www.voithpaperfabricsindia.com.

t may also be noted by all concerned that upon completion of requisit corporate Action procedure and transfer of such shares to IEPF Authorit he old certificates shall automatically stand cancelled and would b

rendered non-negotiable.
In adherence to the requirements of said IEPF Rules, Company ha laready sent individual communication to all concerned shareholder at their respective address registered with the Company, for takin appropriate actions to avoid their shares from being so transferred it cose no communication to receive by the Company from concerned shareholder in this regard by 31st July, 2024, the Company shall take untable steps to transfer such harbers to the demait account of IEP.

Once these dividend/shares are transferred to the IEPF by the Compa

Unce these dawdend/shares are transferred to the IEPP by the Company counter that the counter of the IEPP counter of the IEPP by the Company that the IEPP counter of IEPP counter o

For Voith Paper Fabrics India Limit

bajaj consumer care

BAJAJ CONSUMER CARE LIMITED

CIN – L01110RJ2006PLC047173

Regd. Office: Old Station Road, Sevashram Cho
Udaipur 313 001, Rajasthan
Tel No. +91 294 2561631

Email Id. complianzeoffice/@hajasconsumer.c.

NOTICE OF THE 18th ANNUAL GENERAL MEETING

s hereby given that the 18" Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting" mpany is scheduled on **Friday, August 9, 2024 at 10:30 A.M. at Th**

Near Sevashram Pryover, Udapur 373001, Augustahan, to transact the business as set dutin the Neutro of the AGNI of Company.

Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made the enurion, Regulation 50 of the Securities and Exchange Board of the Securities and Exchange Board of Lishing, Regulations), Securities III standard under General Meditings and udare applicable provisions, the Notice of the AGNI dang with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 have been sent through, electronic mode via e-mails to those Members whose e-mails dare registered with the Company and physical copies to Indice members whose e-mails star registered with the Company and physical copies to Indice members whose e-mails star registered with the Company and physical copies to Indice members whose e-mails star registered with the Company and physical copies to Indice members whose e-mails star registered posts addresses when the permitted modes. The dispatch of the Section of the Secti website of the Stock Exchanges, i.e. viz. www.bseindla www.nseindla.com respectively and on the website of KFin Technolog ("KFINTECH") at www.evoting.kfintech.com.

VIEUT 13 www.evoung.kurrect.com.

A. Members wish logat a physical copy of the Annual Report of the Company of Financial Year 2023-24, they may send a request to the Company at 3° Building No.12. Solatier Corporate Park, 167, Guut Hargovind Maga ala, Andheri (East), Mumbal 400 093 or send an e-mail at allepor@basjcionsumer.com by quoting their DP ID and Client ID or Folio er and the Company will send the seame free of cost.

research and net Company will stend the same fine of coat. Pursuant to provision of Section 16 of the Companies Act, 2015 read with Ruit made thereunder. Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretal Subtradards on General Meetings, the Company is providing to the Mambless with facility to cast their vote on all the business terms set of both in the Notice of AGM facility to cast their vote on all the business terms set of both in the Notice of AGM Track of the Company has engaged the service of KRINTECH for providing e-voting services through e-voting services through e-voting services through e-voting platform.

whose names are recorded in the Register of Members or in the F of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date being August 2, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting of

voling at line-AGM. The remote e-volting period commences on Monday, August 5, 2024 at 9:00 A.M. (IST). The remote e-volting period commences on Monday, August 5, 2024 at 5:00 P.M. (IST). During his period, Members of the Company hoding shares either in physical form or in demantinalized form, as on the cut-off date may cast their votes through remote e-voting with or the allowed boyen that abreasted allow and time and their armode e-voting that or the allowed boyen that abreasted and are and their armode e-voting this of their control evolution. For interest evolution is the process and name of remote e-voting their soft of their control evolution. The control evolution is the process and name of remote e-voting their soft of their control evolution is the process and name of remote e-voting their soft of their soft of their control evolution is the process and name of remote e-voting their soft of their soft of

Please read carefully the instructions and information relating to e-votin furnished in the Notice of the AGM, before exercising the vote through voting.

furnished in the Notice of the AGM, before exercising the vote through a voting.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company and the common state of the control of Vong stani premia not vote Lass ni Lougi polini gapes estanies treated as invani.

The Company has appointed Mr. S.N. Viswanathan, Fracticing Compan Secretary (Membership No. A 6195C, Gertfickate of Practice No. 2433C) failli Thim Mr. Mallall Kumar. Practising Company Secretary, Membership No. A 1550 Certfficate of Practice No.: 10980), as the Scrutilizer to scrutilize the voting ar remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Amonitor critici to attord and visco to the modifying appoint a provy to a not visco an poll restaurch and visco to the modifying my appoint a provy to a not visco an poll restaurch for mised. A provy need not be a member of the Corn. The Provy From disk completed stamped and signed should reach the Regist Office of the Corngany not less than 48 hours before the AGM. The details respect to the appointment and the conduct of the proxy can be referred to in Notice of the AGM.

Notice of the AGM.
In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ);
In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ);
Members and or withing user manual for Members available at the download sed
when the Age of the A

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act. 2013 and Rule 10. the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 and Regulation of 10 Ising Regulations, the Register of Members and the Sinver Transfer book Company will remain closed from Friday, August 2, 2024 to Friday, August 9, 202 (both drays inclusive) for the purpose of 15° Annual General Meeting of it

Date : July 15, 2024 Place : Mumhai

By order of the Board of Directo Head-Legal & Company Secretar Membership No.: A2190





NOTICE ompany have been reported to be jost or mispla

	1	D I L0904323	Renu Sharma	75022 85354 91301	1000 1000 1000	37241291-37242290 603005495-603006494 607014305-607015304		
	2	D 0000020	Dandiya Chandra Kanta	2274-2277* 85527 91428	40° 400 400	10596597-10596636* 603139415-603139814 607130489-607130888		
	3	DJL0041618	Nitaben P Thakker Pravinbhai M Thakkar	56215* 81836 87907 105992	100* 1000 1000 3000	27930351-27930450* 601557999-601558998 605779408-605780407 903044505-903047504		
ı	-					-		

shares of FVRs. 10 each.
Any person which as a claim of lean or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter of confirmation towards issue of displacate share confirmates, in less of the above, is required to not left when save to the Company of a to Registered to not left of leanth by 20 FVZD indicates of the confirmation of the least by 20 FVZD indicates of the least by 20 FVZD indicates of the least by 20 FVZD indicates of the least o

on of documents by the members to the company shall be deemed to be completed 4 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares. For DABUR INDIA LIMITED (A K JAIN) E.V.P.(Finance) & Company Sec New De**l**hi 15.07.2024

zensar

Zensar Technologies Limited

Registered Office: Zensar Knowledge Park, Plot # 4, MIDC, Kharadi, Off Nagar Road, Pune – 411014 Ph: 020-66057500 Fax No.: 020-66057888 E-mail: investor@zensar.com Website: www.zensar.com CIN: L72200PN1963PLC012621

NOTICE

Notice is hereby given that the 61" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Zensar Technologies Limited ("Company") will be held on Friday, August 09, 2024, at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing ("CUT/Other Audio-Visual Means ("OAMM") to transact through video Conferencing ("CUT-Other Audio-Visual Means ("OAMM") to transact business(es), as set out in the Notice of AGM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 09/2023 dated September 25,2023 and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular dated October 7, 2023 (hereinafter collectively referred to as Circular(s).

In compliance with the aforesaid Circular(s), electronic copies of the Integrated Annual Report of in compinance with the appression curcular(s), electronic copies of the integrated Annual Report of the Company for P? 2023-24 along with the Notice of ASM has been sent to all Members of the Company electronically, whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) and/or the Company and/or the Register and Share Transfer Agent (RTA). These documents are also available on following website(s), at www.eventing.nstl.com BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited

BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standards on General meetings ("55-2") Issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically ("remote e-Voting") as well e-Voting at AGM, through e-Voting services of National Securities Depository Limited (MSDL) at www.evoting.nsdl.com in respect of all the business(es) to be transacted at the AGM.

Key instructions for remote e-Voting and e-Voting during AGM :

- Members may attend the 61" AGM through VC/OAVM following the instructions as mentioned
- in the Notice.

 Detailed procedure and instructions for casting vote using e-Voting system of NSDL, by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses, forms part of the Notice.

 The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-Voting. The facility for voting through electronic means shall also be provided at the AGM. Those Members, who are present at the AGM though VC/OAVM facility and have not already cast. their votes on the resolutions via remote e-Voting shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM. The Members, who have cast their vote by remote e-Voting prior to AGM, can attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again a
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equit share capital of the Company as on Friday, August 02, 2024 (cut-off date). Person(s) whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting o e-Voting at the AGM.
- or e-Voting at the AGM.

 The remote e-Voting period commences on Tuesday, August 06, 2024, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, August 08, 2024, at 5:00 p.m. (IST). During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-Voting module shall be disabled by NSD1 thereafter.

 Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, August 02, 2024, may obtain the login 10 and password by sending a request at evoting@nsd1.coin or Issuer/RTA However, if you are already registered with NSD1 for remote e-Voting, then you can use your existing user 10 and password for casting your vote. If you forgo to your growd, you can restey vor password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.mdl.com or call on or call on 222 4886 7000 and 022 2499 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under "Access to NSDL e-Voting system".
- voting system: In case of any queries, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nadl.com or call on: 022 4885 0000 and 022 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID:www.evoting.nadl.com or call on: 022 4885 000 and 022 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID:www.evoting.nadl.com or call on: 022 4885 000 and 022 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID:www.evoting.nadl.com or call on: 022 4885 000 and 022 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID:www.evoting.nadl.com or call on: 022 4885 000 and 022 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID:www.evoting.nadl.com or call on: 022 4885 000 and 022 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID:www.evoting.nadl.com or call on: 022 4885 000 and 022 2499 7000 or call on the call of the call of

Members of the Company who have not registered/updated their email address car register/updatethesame as per the following procedure:

Physical Holding

Contact Company's RTA, KFin Technologies Limited by sending an email at eimward.ris@klintech.com along with request letter, Folio No., name of shareholder, and scanned copy of the share certificate (front and back), PAN Card (self-attested scanned copy), Aadhar Card (self-attested scanned copy), mobile number and email ID.

Demat Holding

Register/update the details in your demat account, as per the process advis by your respective Depository Participant.

The Board of Directors has appointed Sridhar Mudaliar (FCS 6156), and failing him, Ms. Sheetal loshi (FCS 10480), Partners, SVD & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-Voiting process (remote e-voting before the meeting and e-voting during the meeting) in a fair and transparent manner.

Members may note that the Board of Directors of the Company at their Meeting held on April 25 2024, has recommended a final dividend of INR 7.00 (350%) per equity share of INR 2.00 each for FY 2023-24. The Record Date for the said purpose has been fixed as Friday, July 19, 2024. The final dividend once approved, by the Members at the ensuing AGM, will be credited/dispatched within 30 days from the date of declaration to all Shareholders holding shares in physical or electronic mode as on the record date.

To encourage Green Initiative, Members are also requested to register their bank details with Company's RTA/the respective Depository Participant to receive the dividends, when declared by the Company, directly into their bank account through approved electronic mode of payment.

Date : July, 15, 2024



financialexp.epapr.in



'IMPORTANT'

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited canno be held responsible for such contents, nor for any loss of damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspaper or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

RELIANCE FINANCIAL

RELANCE FINANCIAL

RELANCE FINANCIAL LIMITED CONTINUES 18 (this state of the state

П		Quarte	Year Ended		
ir.	Particulars	June 30, 2024	June 30, 2023	March 31, 202	
*		Unauditated	Unauditated	Auditated	
1	Total Income from Operations	40,949	36,082	157,944	
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	21,561	22,070	84,722	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	21,561	22,070	84,722	
	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13,483	21,670	39,239	
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13,483	21,670	39,072	
	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 10/- Each)	241,579	241,579	241,579	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	793,735	762,686	780,253	
П	Securities Premium Account	368,421	368,421	368,421	
П	Net worth (Equity)	1,032,851	1,001,967	1,019,389	
3	Outstanding Debt	65,695	77,309	65,615	
١	Outstanding Receemable Preference Shares	130	130	130	
2	Debt Equity Ratio	0.06	0,08	0.06	
3	Earnings per share on Equity Shares of < 10'- each (for continuing & discountinuing operations) 1. Bascis 2. Diluted	0.56 0.56	0.90 0.90	1,62 1.62	
4	Capital Redemption Reserve			-	
5	Debenture Redemption Reserve	NA.	NA.	NA.	
6	Debt Service Coverage Ratio	NA.	NA.	NA.	
	Interest Service Coverage Ratio	NA.	NA.	NA NA	

The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended fins Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and ID Regulations, 2015, The full format of the quarter ended financial results are of BSE Limited in, www.bajaindia.com and the Conservation which is a limit of the Conservation of the Conservation of the Conservation and the Conservation of the Conserva available on the w

Lav Chatur Dire DIN: 0285

INFIBEAM AVENUES

INFIBEAM AVENUES LIMITED

AVENUES

Registered Office: 28° Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-Sc,
Zone-S, GIFT CITY, Gandhinagar- 382 355, Gujarrat

Tel: +91 79 67772204; Fax: +91 79 67772205 Email: ir@ia.coo; Website: www.ia.coo

NOTICE OF $14^{\rm m}$ annual general meeting of the company to be held throuvideo conferencing (vC)/other audio-visual means and final dividend

NOTICE is hereby given that the 14" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Avenues Limited (the Company) will be held on Wednesday, August 14, 2024 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020. 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2022 and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as MCA Circulars) and Circular No. SEBIH-10/CPD/CMM10/CIPI/2020/76 dated May 12, 2020. Circular No. SEBIH-10/CPD/CMD10/CIPI/2020/76 dated May 12, 2020. Circular No. SEBIH-10/CPD/CPD/CPD/2021/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBIH-10/CPD/CPD/CPD/CPD/2023/4 dated January 5, 2023, Issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA). Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Board of India (SEBI). In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company! Depositories unless any Member has requested for a physical copy of the same by writing to the Company at iregistace, Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2023-24 will also be available on the website of the Company at awwila,200, websites of the Stock Exchanges i.e. the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindla.com and www.nseindla.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NDID") at tww.evs.tinja.sdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Participation of members through VC/OAVM will be reckned for the purpose of quorum for the AGM asper section 103 of the Companies Act, 2013, The instructions for attending the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the AGM.

The Company will provide the facility of remote e-volting prior to the meeting as well as e-vol-

The Company will provide the facility of remote e-voting prior to the meeting as well as e-vot-ing during the meeting to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting will be available in the Notice of the AGM.

once of a Member whose e-mail address is not registered / updated with the Company/ RTA
Depository Participant(s) ("DP"), glease follow the following steps to register the email
ddress for obtaining Annual Report along with AGM notice of the Company and login details

a) For members holding shares in Physical mode - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder by email to ir@ia.ooo or by duly filed in E-communication Registration form available on the website of the Company i.e. www.ia.ooo.

b) Members holding shares in demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

Payment of Final Dividend

Payment of Final Dividend Members may note that the Board of Directors in its meeting held on May 16, 2024 have recommended a Final Dividend of Rs, 0,05/- per Equity Share of Re, 1/- each (i.e., 5%) for the Financial Year ended on March 31, 2024, subject to the approval of Shareholders at the ensuling AGM. The Record date for the purpose of Final Dividend for the Financial Year 2029-24 is August 07, 2024, On approval, the dividend subject to deduction of lax at source will be paid on to before September 12, 2024 to the members whose name appear on the Company's Register of Members as on the Record Date through various modes. To avoid delay in receiving the dividend, members are requested to update their KYC with their depositories (Where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's FTA (where shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account. Members whose shareholding is in electronic mode are requested to notify any change in address or bank account details to their respective depository participants). Members whose shareholding is in electronic mode are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time in lina with the Circulars. We urge the Members to utilize the ECS for receiving dividends.

Members may note that pursuant to Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands Members may note that pursuant to i-inance Act, 2020, dividend income is taxable in the hard of shareholders and the Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 at the time of making the payment of final dividend, In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the relevant documents provided on the website of the Company at histoiders with the procedure of the company at this purpose. The procedure of the company at this purpose of the company at the procedure of the procedu email on infibeamdividend@ia.ooo.

Manner of registering mandate for receiving Dividend:

Manner of registering mandate for receiving Dividend:

The Members are requested to note that SEBI vide its Circular No, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_
RTAMBP/ CIPI/2021/855 dated November 3, 2021 (subsequently amended by Circular Nos.
SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMBP/CIRI/2021/867 dated December 14, 2021,
SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PGD-1/PI/CIRI/2023/37 dated March 16, 2023 and
SEBI/HO/MIRSD/DO-1/PI/CIRI/2023/381 dated Movember 17, 2023) has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders (holding securities in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, bank account details and sencimen signature. specimen signature.

Members holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are reques ed to register the email and other KYC details with their depositories through their depositor participants.

Members holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to submit form ISHA (available for download at https://www.ia.goo/advice-to-shareholders) to update their email. bank account details and other KYC details with the Company's RTA, You are requested to email the duty filled in form to rta@alankit.com and ir@ia.goo.

This will enable the members to receive electronic copies of the Annual Report for FY 2023-24, Notice, instructions for remote e-voting, instructions for participation in the AGM through VC/OAVM and receive the electronic credit of dividend into their bank account. The Notice of the AGM of the Company will be sent to the Shareholders holding shares out-off date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered addresses in due course.

For, Infibeam Avenues Limite

Sr. Vice President & Company Secretary

New Delhi

.

जनसता

उत्तराखंड: भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उपचुनाव के नतीजों पर मंथन ज्याए, 15 जुलाई (भाषा)।

DABUR INDIA LIMITED

*IN - 124230D1975PLC007908

Regd. Office: 83, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002

*Dabur 18, No. - 011-2322488, Fax No. - 011-23222051

NOTICE

56215* 81836 87907

Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter of confirmation towards issue of duplotate share certificates, in lieu of the above is requested to notify the same to the Company at its fleetizered Office letter 19.287.702 villediate and the claim. In our or interest of his/her objection to the issue of said letter of confirmation, through an afficiant of villed the confirmation, through an afficiant of villed the confirmation of the claim. In our or interest of his/her objection to the issue of said letter of confirmation, through an afficiant of villed the confirmation of through an afficiant of villed the confirmation of the claim.

confirmation, through an afficiant duly aftested. In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the ssue of said Letter of Confirmation, in lieu of the above mentioned lost share certificates without intertaining any claim/damages whatsoever it may be.

जनसत्ता सवाददाता देहरादून १५ जुलाई।

देहरपुट्टी 15 जुलाई।

उत्तराखंड में स्तारूड भारतीय जनता पार्टी
(भाजपा) की प्रदेश कार्यसमिति की सोमन्यार को
रेहरपुट्टी में बैठक आयोधित की गई, जिसमें
विधानसभा अद्युवान के नाजीं मार मंचन किया गया
है। उरपुट्टी में माजपा मंगलीर और व्यक्तीमाथ सीट
हार गई है। हालांकि, बैठक में लोकसभा चुनाव में
भाजपा की निली जीत की सराहना की गई और यादी
नेताओं ने मुख्यमंत्री पुक्त रिलंड मार्मी के नेतृत्व पर
विस्तास व्यक्त किया।
प्रदेश कार्यसमिति की ठेठक में मुख्यमंत्री धामी के
कहा कि यिश्यो पत्र लो सराहमां में केटल मार्गायो
में योजनापा वनतीं थीं, लेकिन हम विन योजनाओं का
हिलान्यास करते हैं, उनका लोकसांप भी करते हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की प्रदेश
कार्यसमिति की यह पहली बैठक हुई, शिसमें

1000 1000 1000

For DABUR INDIA LIMITED (A K JAIN) E.V.P.(Finance) & Company Secre

उदयपुर में कार नदी में गिरी, दो लोगों की मौत

[त्र के नतीजों पर मंथन बद्रीनाथ और मंगलीर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की क्षर और आगामी निकाय चुनाव की रागनीति पर चर्चा की गाई। इसके अलावा बैठक में तीन	Ų a	पूर, 15 जुलाई (भाषा)।	ह घटना खं टीजब क टरहेथे।	वेरवाड़ा के गर में सव घुमावदार	जलपाका ार पांच दे मोड़ के प	के पास रित एक गस कार			
ति तो ने	राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री थामी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी मजबूत होती है। भाजपा	TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED REGO PF: A-23, Mandakini Enclave, Alakmanda, GK II, New Delini-110019 Bb: 0420 6232017 usbabilar sasara delinimente india de avaditabila beausarbilanterara pina delini (CNI No.) 1020001 40880 C03406								
त ट में	कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद वे पूरे जोश के साथ मैदान में डटे रहते हैं।	Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended 31.03.2024	Quarter Ended	Year Ended			
Ť	कार्यकर्ताओं की इसी लगुन और समर्पण के दम पर	1	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items	5.95	5.76	6.09	30.90 (6.16)			
₹	भाजपा को राज्य में पांचीं लोकसभा सीट पर विजय	3	Share in Profit / (Loss) in Associate accounted for using Equity Method	(38.08)	(138.50)	(65.20)	(264.55)			
	हासिल हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र	4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items,	(40.49)	(141.97)	(68.11)	(270.71)			
ने	की हर हर योजना का लाभ समाज के सभी वर्गों तक	5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items	(40.49)	(142.64)	(67.38)	(270.25)			
ों ग	पहुंचाया जा रहा है। जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या तीन तलाक, समान नागरिक संहिता हो	7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital	(40.49) 791.69	(142.64) 791.69	(67.38) 791.69	(270.25) 791.69			
1	या राम मंदिर निर्माण। ये सभी भाजपा के वैचारिक संकल्प को दर्शाते हैं। अब हमें प्रदेश के निकाय,	8	Equity share capital Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - (a) Basic (b) Diluted	(0.51)	(1.80)	(0.85)	(3.41)			
Ť	पंचायत और केदारनाथ उपचुनाव में जाना है।	ш	Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Qua			(0.00)	(3,41)			
Ţ	R INDIA LIMITED	Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2024	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2024 Audited			
т.	075DL C007009	-	*****	onedulted	Audited	onaddited	Accounted to			

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited		Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.202 Audited	
	Total Income from Operations	5.95	Audited 5.76	6.09	30.90	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/ or Extraordinary items)	(2.41)	(3.47)	(2.91)	(6.16)	
6						
3	Share in Profit / (Loss) in Associate accounted for using Equity Method	(38.08)	(138.50)	(65.20)	(264.55)	
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(40.49)	(141.97)	(68.11)	(270.71)	
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(40.49)	(142.64)	(67.38)	(270.25)	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period					
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(40.49)	(142.64)	(67.38)	(270.25)	
7	Equity Share Capital	791.69	791.69	791.69	791.69	
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	(a) Basic	(0.51)	(1.80)	(0.85)	(3.41)	
	(b) Diluted	(0.51)	(1.80)	(0.85)	(3.41)	

- associate company.

 Figures of Quarter Ended March 31, 2024 are the balancing figure between audited figures in respect
 unaudited year to date figure upto the third quarter of the relevant financial year.

 Considering the matter of prudence, defiltered tax assessis has not been created on the loss & other dad

riod's classimus.... For Trinity League India Limito S/d

Devinder Kumar Jon. Managing Director DIN: 80437646

SpiceJet Limited Read Office : Indira Go

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024


Regd Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Deihi 110 037
CIN: L51909DL 1984PLC288239
rs@spicejet.com | Website: www.spicejet.com. | Telephone: +91 124 391 3939 | Facsimile: +91 124 391 3888

		Standalone					Consolidated				
s.	Particulars	Quarter ended			Year ended Year ended		Quarter ended			Year ended Year ended	
No.	Particulars	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
l		31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23
1	Total revenue from operations	17,193.7	19,035.7	21,448.6	70,499.7	88,688.4	17,383.9	19,145.0	21,450.7	70,853.1	88,735.9
2	 Net (Loss) / Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 		(3,014.6)	168.6	(4,094.4)	(15,030.2)	1,268.7	(2,987.8)	(62.2)	(4,237.2)	(15,129.5)
3	Net (Loss) / Profit for the period before tax (after Exceptional items)	1,190.0	(3,014.6)	168.6	(4,094.4)	(15,030.2)	1,268.7	(2,987.8)	(62.2)	(4,237.2)	(15,129.5)
4	Net (Loss) / Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,190.0	(3,014.6)	168.6	(4,094.4)	(15,030.2)	1,268.7	(2,987.8)	(62.2)	(4,237.2)	(15,129.5)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising (Loss) / Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,195.9	(2,999.1)	107.4	(4,042.4)	(15,031.3)	1,274.2	(2,972.4)	(124.0)	(4,183.8)	(15,130.0)
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising (Loss) / Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] attributable to :										
	- Owners of the holding company	-	-				1,277.0	(2,970.8)	(123.6)	(4,174.7)	(15,128.1)
	Non-controlling interests	-	-	-	-	-	(2.9)	(1.6)	(0.4)	(9.1)	(1.8)
7	Equity share capital	7,834.1	6,843.4	6,018.5	6,843.4	6,018.5	7,834.1	6,843.4	6,018.5	7,834.1	6,018.5
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the year ended March 31, 2023.	-	-		(33,692.5)	(38,334.5)				(60,007.4)	(64,521.6)
9	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (not annualized)										
	a) Basic (Rs)	1.60	(4.41)	0.28	(6.17)	(24.97)	1.71	(4.37)	(0.10)	(6.39)	(25.14)
	b) Diluted (Rs)	1.42	(4.41)	0.28	(6.17)	(24.97)	1.51	(4.37)	(0.10)	(6.39)	(25.14)

For SpiceJet Limited Sd/-Ajay Singh Chairman and Managing Director

SpiceJet Limited

Regd Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi 110 037 CIN: L51909D1.1984FLC288239 picejet.com | Website: www.spicjet.com. | Telephone: +91 124 391 3939 | Facsimile: +91 124 391 38



tes:
The above is an extract of the detailed format of unaucitied Standatione and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months period ended 31 December 2023, field with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Unaucited Standatione and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months period ended 31 December 2023 are available onth Company's website was spiciety. Company for on the website of the Stock Exchange wow, besinds come.

Place: Gurugram, Haryana Date: 15 July, 2024

For SpiceJet Limited Sd/-Ajay Singh Chairman and Managing Director

दिनांकः 15,07,2024 स्थानः नर्ज दिस्सी

सर्कल शास्त्र सेन्टर, परिवमी दिल्ली

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

्रामंत्रण सूचना **ई-आरएफपीक्यू** के अनुसार टेक्नीकल ग्रेड यूरिया की आपूर्ति के लिए घ गर्मात्रत की जाती हैं:

ि तिए वेबसाइट www.nalionallerlizers.com या hups://www.nalionallerlizers.com и hups://www.nalionallerliz

<u>िविदा आमंत्रण सूचना</u> ओपन – डोमेरिटक कॉम्पिटिटिव बिडिंग I. आ. स्, संख्या : PNMM/PC-281/E-001

प्रभा महामान्यावस्य (सामानी वस्तान), भी की आई एस नीएका

Life में महामान्यावस्य (सामानी वस्तान), वर्ण की का आई एस नीएका

(कांपनी (निमामन) निस्तान) को की समान के किस अनुकार पर में मित्रान का किस अनुकार के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार

फॉर्म ए फान ए सार्वजानिक उदयोषणा (भारतीय दिवाला एवं शोधन अझमता और के विनियम 14 के अंतर्गत) (स्वीध्यक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017) मेसर्स कीपे इलेक्ट्रिक ग्रंबिया प्राइवेट लिगिटेब के वितागरकों के ध्यानार्थ

पता ६ कॉल्पोरेट कारित के लेक्स में दिवाला

पतः भागम् व्यवस्थाः चार्यस्थः चार्यस्थः स्थानस्थानस्य प्रकारम्यः स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य

bobiKwik

वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड पंजी कार्यास्यः सुनेट गंवर १०२ पहली महित्व, व्यक्ति –वी पेनीस्स वन् गोरूक कोसी दोड, रोक्ट-८३, गुरुवामः हरियाणा—122003, गास्त गोरा +91 (124) 409-30344 रोजास्त्रणः U64201H8208PLC053766 वेबसाइट: www.mobikwik.com ईनेलः cs@mobikwik.com

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना (एजीएम नोटिस प्रेषण पूर्व)

एलादान सुम्मा से जाते हैं कि वन नोविक्तिक सिरम्प लिग्निट (क्षण) के सरस्यों की इंडी बॉक्टिंक जान रेकर (एलोस्प) की सुम्मा ने स्पीव्ध, व्यस्तामों में निव्यन्त रहे पुरुक्तिए, कश्यूर, 2024 को स्मा 1000 को (मार्टियो क्षायुक्त) करने कि विक्रीय , 2013 कि तिम्मा के रात्ते ने एली न्यूर प्रात्ताची के सरसीट में स्मानित क्षायुक्त के स्मान्य मुख्य वर्ष सामान्य परिवत्न स्थान अ/2020 किए कहा करीत, 2020, परिवाद कार्यों प्रत्ये क्षायों कार्यों के स्थानक प्रत्ये कार्यों सामान्य परिवत्न स्थान अ/2020 स्थित करीत, 2020, परिवाद क्षाया 2022 कि स्थान कर उर्वेद क्षायों के प्रतिकाश कर अध्याप क्षाया अपने अध्याप कर स्थान क्षाया 2021 दिनक के स्थान कर स्थान क्ष्मा क्ष्म

आवरितित की प्राप्ती। जनस्तित करिता प्रतिक्रित की अनुपारत में, एत्रीएम की गुरुवत राग्ने आवरण्य तत्तानकों के कंप्यद इतेन्द्रितीय मोद के माम्मम के प्रतापत किया को मोती जागो जिता है -तेन वर्ग करणी, दिवारी प्रतिक्रित है त्रिक प्रतापत इंडिया प्रदार्श त्रिकेट के पात परिवारी है। एत्रीएम का मोतीन करणी वेत्रपारत <u>www.mobblewis.com/ir</u> और तेंद्रत दिवारीकरणे चार्चित के त्रिकारी वेत्रपारत के प्रतिक्रमा करणा के प्रतिक्रमा के प्रतिक्रम के प्रतिक्रमा के प्रतिक्रम के प्रतिक्रमा करणा के प्रतिक्रम के प्रतिक्रम

कृते वन मोबिविवक सिस्टम्स लिमिटेर दिनांकः 15 जुलाई, 2024 स्थानः गुरुग्राम अंकिता शर्मा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी